

R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

Corporate Identity Number: L74899DL1993PLC053579
[CMMI Level 5, PCMM Level 5, ISO 9001:2015 & ISO 27001:2013 Company]
C-40, Sector-59, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P., India – 201 307

Phones: +91-120-4303500 Fax: +91-120-4082699 Email : rsil @rsystems.com www.rsystems.com Regd. Off.: GF-1-A, 6, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi- 110019

REF: SECT/02/2022/13

FEBRUARY 19, 2022

The Managing Director

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

Bandra Kurla Complex,

Bandra - East, Mumbai - 400 051

NSE Symbol - RSYSTEMS

The General Manager

BSE Limited

Department of Corporate Services,

Rotunda Building, 1st Floor, Mumbai Samachar Marg, Fort,

Mumbai - 400 001

BSE Scrip Code – 532735

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement – Financial Results For The Quarter And Year Ended December 31, 2021

This is with reference to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"). We are enclosing a copy of newspaper advertisement of the Financial Results of the Company for the quarter and year ended December 31, 2021 published in Business Standard (English) all editions and Business Standard (Hindi), New Delhi edition on February 19, 2022.

This is for your information and record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For R Systems International Limited

Bhasker Dubey

(Company Secretary & Compliance Officer)

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि.

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **स्मृति रंजन साहू, निबंदिता मनस्विनी और एकता शर्मा** को 28.10.2021 की सूचना में वर्णन के अनसार कर्ज खाता नं. HHLRHN00254205 की राशि रू.32.78.977.91 (रूपये बत्तीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ सतहत्तर और इक्यानवे पैसे मात्र) और 21.10.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 16.02.2022 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.32,78,977.91 (रूपये बत्तीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ सतहत्तर और इक्यानवे पैसे मात्र) 21.10.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

भरवंड नंबर 53, 54, 61 और 62, एफएफ (गली नंबर 5 और 7), ब्लॉक-बी, खसरा नंबर 882 के बाहर, गाँव नवादा, आबादी जिसे सेवक पार्क के रूप में जाना जाता है, नजफगढ़ रोड़, उत्तम नगर नर्ड दिल्ली-110059

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 16.02.2022 दंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : दिल्ली

अवनसे फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड **पंजी. व निगमित कार्यालय पता :** फलक्रम बिजनेस सेंटर, 001 व 002, ए विंग, हयात रजेंसी होटल से अगले, सहर रोड अंधेरी (ईस्ट), मुबंई-400 099 महाराष्ट्र



सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना आप ऋणी व सह—ऋणी विशेष रूप से नीचे दी गई तालिका में विशेष रूप से वर्णित नीचे दी गई तालिका में वर्णित ("प्रतिभूतित संपत्तियाँ") में विशेष रूप से वर्णित अचल संपत्ति / यों को गिरवी रखकर अवनसे फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("अवनसे") र ऋण सुविधा (एं) प्राप्त की थी और आपको अवनसे के साथ निष्पादित ऋण अनुबंध व तहत ऋणियों और सह—ऋणियों के रूप में माना गया था।

आपके द्वारा असफल होने पर, आपके ऋण खाता नं. DEL/F05164 और JAI/F00401 को 24 दिसंबर 2020 को गैर-परफार्मिंग संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया था। वित्तीर परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 **('सरफेसी अधिनियम')** के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नेयम 3 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियो के अनुपालन में अवनसे मौजदा प्रतिभति ऋणदाता ने सचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण व अंतिम भुगतान की तिथि तक व्यय जारी ब्याज के साथ सुचना में वर्णित बकाया ऋण राशि के पुनर्भुगतान का मांग करते हुए हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध आपके अंतिम ज्ञात पते पर आप ऋणियों और सह—ऋणियों को सरफेसी अधिनियिम की धारा 13(2) के तहत देय पावती (आर.पी.ए.डी.) के साथ पंजीकृत डाक के तहत मांग सूचना **('सूचना')** भेजी थी, हालांकि, व्यक्तिगत ऋणी / यों को उक्त सूचना(ओं) के सहित कुछ जेफे नीचे वर्णित संचार पते से बिना कार्यवाही के वापस मिले हैं। अर्ज उक्त सूचनाओं की सामग्री को प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार और आप सभी को वैकल्पिक सेवा द्वार यहां प्रकाशित किए जा रहे हैं।

ऋणियों, सह-ऋणियों, प्रतिभूतित संपत्तियों, मांग सूचना का विवरण और सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी उपरोक्त सूचना(ओं) में तहत उसमें दावा / मांगी गई बकाया राशि का विवरण यहां नीचे वर्णित है :-

क्र. सं.	ऋणियों / सह— ऋणियों के नाम	स्थिति	स्वीकृत ऋण राशि (भारतीय रुपए में)	मांग सूचना तिथि	17.01.2021 तक देय कुल बकाया राशि (भारतीय रुप्एमें)
1	मैसर्स जम्बो फिन वेस्ट (इंडिया) लि.	ऋणी	_	08/02/2022	रू. 10,77,59,080 / — (रुपए दस करोड़ सत्तहर लाख उनसठ हजार व अस्सी केवल) (अर्थात् रू. 2,97,14,871 / — ऋण खाता सं. DEL/F05164 में व रू. 7,80,44,209 / — ऋण खाता सं. JAI/F00401 में)
2	अजय कुमार सिंह	सह–ऋणी	Rs. 20,00,00,000/- (Rupees Twenty Crore Only)		
3	सिद्धार्थ अजय सिंह	सह–ऋणी			
4	रेखा अजय कुमार सिंह	सह—ऋणी			

प्रतिभूतित संपत्ति का विवरण

ए) ऋणियों के बुक डेब्ट्स पर हाइपोथेकेशन के द्वारा विशेष प्रभार, बकाया ऋण प्रक्रियाओं का उपयोग करके ऋणियों द्वारा वित्त किए गए ग्राहकों से संबंधित प्राप्तयोग्य राशि, और संबंधित यूनिट / बिजनेस, बकाया राशि, प्राप्तयोग्य, दावों. बिलों अनुबंधों, संलग्नकों, प्रतिभतियों, ऋणी के अधिकारों जो ऋणर से संबंधित हैं या देययोग्य हैं या अब देने हैं या जो इस प्रतिभति की निरंतरता के दौरान यहां के बाद किसी भी समय पर देय देययोग्य या इसके व्यापार के कोर्स में ऋणी से संबंधित हो सकते हैं या जो यहां के बाद ऋण प्रक्रियाओं का उपयोग करके वित्त किए गए ग्राहक से ऋणी को देय और देययोग्य हो सकते हैं।

बी) ऋण सं. क्रमश : DEL/F05164 & JAI/F00401 के विरूद्ध लेंडर को मार्क कि गए फिक्स्डि डिपोजिट ऋण के रूप में 7.50% व 3% कैश कॉलोटेरेल

सी) ऋण सं. क्रमश : DEL/F05164 & JAI/F00401 के विरुद्ध लेंडर को वित्त की गई राशि के 1 व 1 1 गना के ऋण कवर

डी) ब्याज सेवा और मूल राशि दोनों के लिए ईसीएस / पीडीसी / एनएसीएच मैनडेट। ई) फिक्स्डि डिपोजिट व उसपर ब्याज की मूल राशि के सहित लेकिन सीमित नहीं क्रेंडिट इनहेंसमेंट के रूप में प्रस्तावित फिक्सिड डिपोजिट के प्रक्रियाओं के सहित लेंड

के पक्ष में उक्त (ए) में वर्णित संपत्तियों के विरूद्ध ऋण के 1.1 गुना का एक मार्जिन

एतदद्वारा आपको, ऋणियों, सह—ऋणियों और उक्त वर्णित अनुसार ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे संस्थान के निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीत संबंधित ऋणी व सह—ऋणी / यों के विरूद्ध उक्त वर्णित अनसार पर्ण व अंतिम भुगतान की तिथि तक जारी ब्याज व व्यय लागत के सहित समग्र बकाया राशि क भुगतान करने के लिए बुलाने की सूचना दी जाती है क्योंकि उक्त राशि उक्त वर्णित अनुसार तिथि तक ऋण खाते के संबंध में देययोग्य पाई गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पूर्ण व अंतिम भगतान की तिथि तक जारी ब्याज व व्यय लागत सहित समग्र बकाया राशि का भूगतान नहीं किया गया है, अवनसे नीचे दी गई तालिका में वर्णि अनुसार प्रतिभूतित संपत्तियों पर प्रतिभूति हित के कब्जे के लिए उचित कार्यवाही करन ैलिए बाधित होगा। सरफेसी अधिनियम व उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत निर्धारित अनसार अन्य तरीकों में सचना की सेवा के लिए भी यह कदम उदाए जा रहे हैं। कपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप जबतक हमारी सहमति के बिना बिक्री, लीज, गिरवी, शूल्क या अन्यथा द्वारा उक्त संदर्भित

प्रतिभूतित संपत्तियों पर कोई ऋणभार तैयार करने या हस्तांतरित करनें से बाधित हैं।

स्थान : दिल्ली दिनांक : 17.02.2022

CAPITAL

अवनसे फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के लिए

मांग सूचना पत्र वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनःनिर्माण की धारा 13 (2) एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 ("नियमावली") के साथ पठित प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के अधीन।

आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड (एबीएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के अधीन एवं नियम 3 के साथ पठित अधिनिय की घारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन मांग सूचना पत्र जारी किया जिसके तहत निम्नलिखित ऋणी (ऋणियों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर संबंधित मांग सूचना पत्र (त्रों) में वर्णित राशि को चुकाने के लिए कहा गया था। अधीहस्ताक्षरी को यथा संगत विश्वास है कि ऋणी मांग सूचना पत्र (त्रों) की सेवाओं को लेने से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना दिए जाने की

उपरोक्त के संबंध में, एतदद्वारा उक्त ऋणियों/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार फिर से सुचित किया जाता है कि संबंधित सुचना पत्रों की

तिथि से 60 दिनों के अंदर नीचे उनके संबंधित नाम के समक्ष वर्णित राशि, उक्त ऋणी द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध एवं अन्य दस्वावेज/लेखन यदि कोई है, के साथ पठित नीचे चर्णित खंड (घ) में उल्लिखित तिथि से भुगतान होने की तिथि या वसूली होने तक आगे ब्याज के साथ एबीएफएल को चुकाएं। ऋण के नियत भुगतान के लिए जमानत के तौर पर, उक्त ऋणी द्वारा एबीएफएल के पास निम्निलिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को गिरवी रखा गया है।

हस्ता. 🖊

आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता है इंडियन रेयन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362 266 और जिसके शास्त्रा कार्यालय का पता है प्लॉट नं. 17, प्रथम तल, विजया बैंक बिल्डिंग,

बड़ाखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001

19/01/2022

05/11/2021

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लि.

गमित कार्यालय : प्लॉट नं. 492, उद्योग विहार, फेज—3, गुरुग्राम हरियाणा—122016 पंजीकृत कार्यालय : 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर कर्मिशयल कॉम्प्लैक्स, आजादपुर, नई दिल्ली—110033

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम् ८(1) के अनुसार

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गटन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन् अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन्) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पटित धारा 13(12) के अंतर्गृत प्रदृत्त् शक्तियों के अनुपालन में मैसर्स सैटिन हाजुसिंगू साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदेत्त शक्तियों के अनुपालन में मैससे सैटिन हाउसिंग
णाइनेंस लिमिटड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति
लिथि से 60 दिनों के भीतर 10 अक्टूबर, 2021 तक सूचना में वर्णित राशि रू. 25,99,102 /—
(रुपए पच्चीस लाख निन्यानवे हजार एक सौ दो केवल) का भुगतान करने के लिए
ऋणी / ऋणियों श्री श्री राजू कुमार सिंह (LAN LADEL0319-00000602) को बुलाने के
लिए मांग सूचना दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 जारी की थी।
ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहें, एतदद्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित
किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त

क्षिया जाता है। के अवाहरताबर्रा ने उपता नियमावला के नियम 9 के साथ पाठत उक् अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णिः संपत्ति पर **12 फरवरी 2022** को कब्जा ले लिया है।

राभारा पर 12 भरे**या 2022** का कहा हो एस 18 । विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन—देन उसपर ब्याज के साथ उसमें वर्णित अनुसार राशि के लिए मैसर्स सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार क

अचल संपत्ति का विवरण

ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट, ए—15—ए/1, खसरा नं. 1953/944/325—358/2/2 भानसरोवर पार्क, जी.टी. रोड, इलाका, शाहदरा, दिल्ली सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व : अन्य संपत्ति पश्चिम : अन्य संपत्ति, उत्तर : सड़क, दक्षिण : प्लॉट नं. ए—15

प्राधिकृत अधिकारी सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि

स्थान : दिल्ली दिनांक : 18.12.2021

इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार सविता दत्ता, शंकर कुमार दत्ता, मनीष दत्ता, दीपक कुमार और लक्ष्मण कुमार को 29.10.2021 की सुचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HLAPLAJ00491107** की राशि रू. 32,49,881.92 (रूपये बत्तीस लाख उनचास हजार आठ सौ दक्यासी और बानवे पैसे मात्र) और 25.10.2021 के अनसार उस पर ब्याज उक्त सुचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 16 02 2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदुद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 32,49,881.92 (रूपये बत्तीस लाख उनचास हजार आठ सौ इक्यासी और बानवे पैसे मात्र) 25.10.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण संपत्ती बेअरिंग नंबर आरजेड-16ए, प्लॉट नंबर 16 का हिस्सा, बेअरिंग खसरा नं. 25/22/1, डाबरी एक्सटेंशन पूर्व, नई दिल्ली, दिल्ली - 110045.

पाधिकत अधिकारी दिनांक : 16.02.2022 स्थान : दिल्ली इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

> परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेत्)

जब कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार अरशद; सी/ओ हरविंदर कुमार सूरी - प्लॉट नंबर 54 एसएफ, ब्लॉक सी, कबाड़ी मार्केट, मदन जनरल स्टोर के पास, इस्तसल, उत्तम नगर, दिल्ली 110059, नई दिल्ली, दिल्ली- 110059, अरशद; ओजेबी हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, 426 एफएफ एफ/आईई पटपड्गंज औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली, दिल्ली - 110092, रिजवाना खातून ; सी/ओ हरविंदर कुमार सूरी - प्लॉट नं. 54 एसएफ, ब्लॉक सी, हस्तसल, उत्तम नगर, दिल्ली 110059, नई दिल्ली, दिल्ली - 110059, रिजवाना खातून; सी/ओ हरविंदर कुमार सूरी - प्लॉट नं. 54, एसएफ, ब्लॉक सी, कबरी मार्केट, मदन जनरल स्टोर के पास, हस्तसल, उत्तम नगर, दिल्ली - 110059, नई दिल्ली, दिल्ली - 110059, माया देवी; ई-121 ए, ओम विहार, फेज 5, उत्तम नगर, डी के मोहन गार्डन, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली - 110059, को 03.09.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDCP00380262 की राशि रू. 13,42,368.31 (रूपये तेरह लाख बयालीस हजार तीन सौ अद्याद और दक्ततीय पैसे पान) और 28 06 2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सचना की पानी की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतददारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचन दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 17.02.2022 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 13,42,368.31 (रूपये तेरह लाख बयालीस हजार तीन सौ अड़सठ और इकतीस पैसे मात्र) 28.06.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने

के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नंबर ई-135, दूसरी मंजिल (पीछे बाएं ओर), ब्लॉक-ई, खसरा नंबर 66/11, ग्राम हस्तसाल, ओम विहार, फेज-V, नई दिल्ली, दिल्ली - 110059.

सही/ दिनांक : 17.02.2022 प्राधिकत अधिकारी दंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स. 2002 के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार जितन जॉली और सोनिया जॉली को 26.10.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00283256 की राशि रू.20,25,715.09 (रूपये बीस लाख पच्चीस हजार सात सौ पंद्रह और नौ पैसे मात्र) और 26.10.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स. 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 17.02.2022 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू 20 25 715 09 (रूपये बीस लाख पच्चीस हजार सात सौ पंद्रह और नौ पैसे मात्र) 26.10.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपूर्ण तिसरी मंजिल (छत के अधिकार के साथ) बेयरिंग नं. 255 के हिस्से पर बनी हुई संपत्ति, पॉकेट नं -8 में जिमन मापित क्षेत्र 32 चौ. मीटर्स, सेक्टर 23, रोहिणी आवासीय योजना के अभिन्यास योजना में स्थित, रोहिणी, नई दिल्ली -110085, उक्त संपत्ति के अंतर्गत भूमि के आनुपातिक स्वतंत्र अधिकार के साथ और जो निम्ननुसार परिबध्द है :-

पूर्व : प्लॉट नं. 286 पश्चिम : प्रवेश दक्षिण : प्लॉट नं. 254 उत्तर: प्लॉट नं. 256

सही/-दिनांक : 17.02.2022 प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान :दिल्ली

परिशिष्ट IV देग्बें नियम 8(1) कब्जा सचना

जब कि.

इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स. 2002 के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार जितन जॉली और सोनिया जॉली को 27.10.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00283231 की राशि रू.19,96,722.09 (रूपये उन्नीस लाख छियानवे हजार सात सौ बाईस और नौ पैसे मात्र) और 26.10.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सुचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सुचना जारी की थी ।

(अचल संपत्ति हेत)

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स. 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 17.02.2022 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.19,96,722.09 (रूपये उन्नीस लाख छियानवे हजार सात सौ बाईस और नौ पैसे मात्र) 26.10.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपूर्ण तिसरी मंजिल (छत के अधिकार के साथ) बेयरिंग नं. 254 के हिस्से पर बनी हुई संपत्ति, पॉकेट नं -8 में जिमन मापित क्षेत्र 32 चौ. मीटर्स, सेक्टर 23, रोहिणी आवासीय योजना के अभिन्यास योजना में स्थित, रोहिणी, नई दिल्ली -110085, उक्त संपत्ति के अंतर्गत भूमि के आनुपातिक स्वतंत्र अधिकार के साथ और जो निम्ननुसार परिबध्द है:-

पूर्व: प्लॉट नं. 287 पश्चिम : प्रवेश दक्षिण : सर्विस लेन उत्तर : प्लॉट नं. 255

दिनांक : 17.02.2022 प्राधिकृत अधिकारी दंडियाबल्य हाउसिंग फायनान्य लिमिटेड स्थान :दिल्ली

सही/-

पंजाब नेशनल बेंद्र Upunjab national bank भरोसे का प्रतीकthe name you can BANK upon!

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, 9/90, प्रथम तल, पी – ब्लॉक, क्नॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, ईमेलः cs8334@pnb.co.in

कब्जा सूचना प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(4) के नियम 8 (1) के साथ पठित (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत (इसके बाद "कहा अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अधीन **पंजाब नेशनल बैंक**, क प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ (इसके बाद "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित कहा गया) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता उक्त राशि का मुगतान करने मे असफल हो गये है. उपरोक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि चुकाने के लिए और इसलिए यह नोटिस कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता तथा आग ानता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की घारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित दिनांक के अनुसार लिया है। विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **पंजाब नेशनल बैंक, के प्रभार**

वास्ते निम्नलिखित राशि और संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत, शुल्क इत्यादि सहित के अधीन होगा।

चल/शबल समाचि का विवस

L	नर्म भागा निर्माण निर्				
ſ	क्रं सं	खाते का नाम (कर्जदाूर/	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि	माँग सूचना की तारीख
l	सं.	गारंटर / बंधककर्ता)	वनक सन्तरास्त्रा का विवरन	44741 (11(1	कब्जा सूचना की तारीख
ſ	1	श्रीमती साक्षी तनेजा और श्री सचिन तनेजा	साम्यिक बंधक सम्पत्ति नं. एच — 1 / 55, तृतीय तल, लाजपत		
l			नगर, नई दिल्ली—110024 में स्थित	दिनांक 01.04.2021 से भविष्य का ब्याज, लागत एवं अन्य प्रभार इत्यादि	14-02-2022
ſ		मैसर्स ENN ENN एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग इसके प्रोपराईटर			
		श्री नरिंदर नैय्यर और गारंटर / बंधककर्ता श्रीमती कुसुम नैय्यर और श्री नवीन नैय्यर द्वारा	(करतारपुर) गाँव तिहाड़, नई दिल्ली—110018 में स्थित, क्षेत्रफल 150 वर्ग गज	दिनांक 01.04.2021 से भविष्य का ब्याज, लागत एवं अन्य प्रभार इत्यादि	14-02-2022
ľ	दिनांक : 14-02-2022, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बँक				

🚵 इण्डियन ओवरसीज बैंक पंजाबी बाग शाखा

1/52, नॉर्थ एयेन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026, दूरभाषः 011-25223019, 25223958, ईमेलः iob0687@iob.in प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम)

की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियमों) के नियम 3 (1) के अधीन

1. चंकि . इण्डियन ओवरसीज बैंक के अधिकत अधिकारी होने के नाते अद्योहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम के अधीन तथा धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सुचना जारी की थी, जिसमें यहां नीचे सुचीबद्ध कर्जदारों/गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं को इस सुचना की प्राप्ति की तारीर से 60 दिनों के अंदर यहां नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार सूचना में उल्लिखित रकम चुकता करने को कहा गया था।

2. उक्त सुचनाएं डाक प्राधिकारियों द्वारा बिना डिलीवरी की वापस कर दी गई / कर्जदारों/गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। *अतएव, बैंक अत्यंत सतर्कता के तहर यह मांग सुचना जारी कर रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त अधिनियम के अनुसार इन सुचनाओं को उक्त कर्जदारों/गिरवीदाताओं/गारटीदाताओं के अंतिम ज्ञात पते पर के परिसरों पर विपकाया गया। उक्त सूचनाओं की प्रतिलिपियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है तथाँ उक्त कर्जदारं/गिरवीदाता/गारंटीदाता चाहे तो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्यकारी दिवस को काम के सामान्य घंटे के दौरान उक्त प्रतिलिपियां संग्रह कर सकते हैं।

3. ऊपरोक्त पुष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उक्त कर्जदारों/गारंटीदाताओं को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर ऋण तथा अन्य दस्तावेज के अधीन नीचे उल्लिखित/भुगतेय रकम इण्डियन ओवरसीज बैंक को चुकता करने हेतु एक बार फिर सूचना दी जाती है, ऋण चुकता करने के लिए जमानत के तौर पर संबंधित पार्टियों द्वारा नीचे वर्णित सम्पत्तियां इण्डियन ओवरसीज बैंक के समक्ष हॉयपोथिकेंट पर रखी गईँ है। दि 30 11 2021 को* मांग सचना प्रत्याभन सम्पत्ति का विवरण

- 1		4 -1 41 (1) 11 11 11 11 11	141 001111-0-1		1
١	सं.	के नाम साथ में पता	कुल बकाया रकम	की तारीख	
ı	1.	श्री जीतेन्द्र मिनोचा (पिता श्री सुरेंद्र कुमार मिनोचा)			4-पहिया वाहन फोर्ड एंडीवर 3.2 4 x 4 एटी,
आवासः जी 40, तीसरी मंजिल, पुष्कर एनक्लेव, पश्चिम विहार,		आवासः जी 40, तीसरी मंजिल, पुष्कर एनक्लेव, पश्चिम विहार,	रु. 32,95,975/-	30-12-2021	पंजीयन सं.ः डीएल10सीएम8401
l		नई दिल्ली-110063			(जीतेन्द्र मिनोचा, कर्जदार का स्वामित्व)
ı	2.	श्रीमती शमीना खान (पति श्री शदाब खान)			4-पहिया वाहन टोयोटा इन्नोवा क्रिस्टा 2.4एल,
١		आवासः मकान नं. 8934, नया मोहल्ला, मोती मस्जिद के निकट,	रु. 17,50,290/-	30-12-2021	पंजीयन सं.ः डीएल8सीएवी7439
١		आजाद मार्केट, पुल बंगश, बरेल वाला बाग, नई दिल्ली-110006			चेसिस नं. एमबीजेजेबी8ईएम201552630
١		•			(शमीना खान, कर्जदार का स्वामित्व)
ı	*				

फपर उल्लेखित तारीख से भुगतान की तारीख तक स्वीकृत अनुबंधकीय दर पर आगे के ब्याज/रेस्ट की रकम भुगतेय होगी।

4. उक्त कर्जदारों/गारंटीदाताओं द्वारा ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार इण्डियन ओवरसीज बैंक को भुगतान करने में विफल रहने पर इण्डियन ओवरसीज बैंक उक्त कर्जदारों/ गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं की सम्पूर्ण जोखिम, लागत तथा परिणामों पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत सम्पत्ति के खिलाफ कार्रवाई आरम्भ कर देगा। 5. इसके अलावा, कर्जदारों/गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं का ध्यान प्रत्याभृत सम्पत्तियों को मुक्त करवाने के लिए उनके पास उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धार

(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। 6. सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत उक्त कर्जदारों/गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं पर इण्डियन ओवरसीज बैंक की लिखित रूप से पूर्व अनुमति के बगैर बिक्री, पट्टे अथवा अन्य किसी भी रूप में प्रत्याभुत सम्पत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है। अधिनयमों अथवा नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने अथवा उल्लंघन करने के लिए उकसाने वाले किसी भी व्यक्ति

अधिनियम की धारा 29 के अधीन जेल जाने तथा/अथवा जुर्माना का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। स्थानः नई दिल्ली, तारीखः 18.02.2022 हस्ता/- अधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

CIN : L74899DI 1993PI C053579 Registered Office: GF-1-A, 6, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi- 110019

Tel: +91 120 4303500; Fax: +91 120 4082699; Website: www.rsystems.com; Email: rsil@rsystems.com

Extract of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended December 31, 2021

(Rs. in million, except per share data) Standalone Financial Results **Particulars Consolidated Financial Results** Three months ended Year ended Three months ended Year ended 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 (Refer Notes) (Audited) (Audited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 1.684.28 1,209.58 5,775.01 3,286.46 2.366.41 11,556.39 Revenue from operations Profit before tax and exceptional items for the period' 391.72 293.81 1.358.93 408.24 350.38 1,700.72 Profit before tax after exceptional items for the period 391.72 293.81 1.358.93 408.24 331.73 1.700.72 255.44 Net profit after tax and exceptional items for the period* 332.28 1.157.47 327.93 292.99 1.414.36 Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) 331.08 250.91 1,158.18 325.57 322.99 1,382.17 and other comprehensive income (after tax)] Paid - up equity share capital (Face value Re. 1/- each) 118.31 119.64 118.31 118.31 119.64 118.31 Reserves excluding Revaluation Reserve as at December 31, 2021 and 3,421.33 3,309.28 3,421.33 4,484.65 4,148.61 4,484.65 December 31, 2020 Earnings per share (Face value of Re. 1/- each) (not annualised)* Basic and diluted 2.80 2.14 9.70 2.77 2.45 11.85

The Company does not have any extraordinary item to report for the above periods.

₹. 28, 27, 842.48/-

(रूपये अट्टाईस लाख सत्ताईस

हजार आठ सौ बयालीस

और पैसे अडतालीस मात्र) दिनांक

11/01/2022 को

- The financial results for the quarter and year ended December 31, 2021 were reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their meetings held on February 18, 2022.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com,

For and on behalf of the Board of Directors of

Lt. Gen. Baldev Singh (Retd.)

श्रीमती अनिता सोलंकी, पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति। श्री योगेश कुमार सोलंकी, आरजेड-4, जैन कॉलोनी, पार्ट−3, हमुनाम मंदिर के पास, ग्राम−मटियाला, उत्तम नगर, डी. के. मोहन गार्डन, दिल्ली-110059 ऋण खाता सं.: ABFLNDDSB0000060032 & ABFLNDDSB0000062030 गिरवी रखी अचल संपत्ति/संपत्तियों का विवरण

सेवा को नत्थी करते हुए एवं प्रकाशन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। मांग सूचना पत्र का विवरण नीचे वर्णित है

ऋणी (ऋणियों) के नाम

श्री योगेश कुमार सोलंकी पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति। श्री दया नंद सोलंकी आरजेड-4, जैन कॉलोनी,

110059, यहाँ भीः श्री योगेश कुमार सोलंकी, पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति। श्री दया नंद सोलंकी, रॉयी

फूटवेयर का प्रॉप्राइटर, प्लॉट नं. 196, गली नं. 22, मिटयाला ग्राम, उत्तम नगर, दिल्ली-110059

पार्ट-3, हमुनाम मंदिर के पास, ग्राम-मटियाला, उत्तम नगर, डी. के. मोहन गार्डन, दिल्ली-

निम्नलिखित के सभी एवं अंश-आरजेड-4, (पुराना नं. 4), खसरा नं. 32/20 से, ग्राम-मटियाला, जैन कॉलोनी, पार्ट-।।।, उत्तम नगर, दिल्ली-110059 औ **सीमाएँ इस प्रकार**: पूर्व की ओर: अन्य का प्लॉट, पश्चिम की ओर: अन्य का प्लॉट, उत्तर की ओर: अन्य का प्लॉट, दक्षिण की ओर: सड़क ऊपर वर्णित तिथि के संबंधित मांग सूचना पत्र में विशेष रूप से व्यक्त दर पर भुगतान होने और/या वसूली न होने तक आगे ब्याज, अतिरिक्त ब्याज खर्च किए गए प्रासंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ। यदि उपरोक्त ऋणी उपर्युक्त अनुसार एबीएफएल को भगतान नहीं कर पाते हैं, तो एबीएफएल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं प्रयोज्य नियमों के अधीन उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध उक्त ऋणियों/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के संपूर्ण जोखिम, लागत एवं परिणाम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

उक्त अधिनियम के अधीन उक्त ऋणियों/कानुनी उत्तराधिकारियों/कानुनी प्रतिनिधियों को एबीएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) की बिक्री करने, लीज पर देने या अन्य रूप में स्थानांतरित करने से वंचित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पन:निर्माण की धारा 13 (2) एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन यह अंतिम सूचना है। कहने की जरूरत नहीं है कि संपूर्ण रूप से ऋणियों के विरुद्ध उनके निजी जोखिम, दायित्व एवं लागत पर ऊपर संदर्भित किसी भी या सभी अधिकारों को अमल में लाने का अधिकार एबीएफए के पास रहेगा।

दिनांक: 08/02/2022 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, स्थान:- दिल्ली (आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड)

Place: NOIDA

Date: February 18, 2022

क्र. कर्जदारों/स्वत्वाधिकारियों

www.nseindia.com and Company's website at www.rsystems.com.

R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

President & Senior Executive Director DIN: 00006966

Vedanta set for \$15-bn play in semiconductor, display unit ventures

SURAIFFT DAS GUPTA & SHINF IACOR New Delhi/Chennai, 18 February

nil Agarwal-led Vedanta Group is getting ready for two separate ventures that may see investments worth \$15 billion in chip and display manufacturing space in India. One will be with Hon Hai Technology Group (also known as Foxconn) to manufacture 28-nano meter semiconductor chips based on a technology developed by the Taiwanese multinational. The other venture is meant for a display manufacturing unit.

For the display venture, the company is in talks with at least seven global majors including LG, Sharp and Japan Display for a potential technology or equity partnership.

There will be two separate special purpose vehicles (SPVs), according to Akarsh Hebbar, managing director of Avanstrate, a Vedanta Group firm that will spearhead the chip business. "For chip manufacturing, it will be a 60:40 joint venture between us and Foxconn, where two equity partners are sufficient and Foxconn will bring the technology," Hebbar

Avanstrate is looking for around 450 acres of land for both these ventures. It's looking at several states including Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka. On February 14. the companies had formed a joint venture (JV) to manufacture semiconductors. This was the first tie up in the electronics manufacturing space after the government announcement of the an incentive policy.

Vedanta expects to start manufacturing 28nano meter chips, which are the most used ones in India, by 2026, and expects to produce around 60,000 units per month. The display venture is likely to be on track by 2024.

Vedanta had acquired AvanStrate, a Japanese glass substrate manufacturer, in 2017. Since the company already has glass substrate technology, the new partner will bring in the balance of technological requirement. Hon Hai, along with its subsidiaries including Foxconn, is the world's largest electronic manufacturing services (EMS) player with a market share exceeding 40 per cent. This is the first time that the company will make 28 nano-



A NEW PATH

AvanStrate, glass substrate maker acquired by Vedanta in 2017, will lead chip, display

▶ \$11-bn investment expected in first phase

▶ \$7-bn investment lined up for chip manufacturing with Foxconn

▶ Vedanta in talks with global majors for tech or equity partnerships for the display venture

▶ 450 acres land required for the 2 projects

meter chips, end-to-end completely, using the IP it acquired.

The government came out with an incentive scheme for semiconductor and display manufacturing eco-system with an outlay of ₹76,000 crore in December 2021. This was followed by the launch of India Semiconductor Mission (ISM), targeting mega investments for manufacturing facilities in the sector.

Out of the \$15 billion investment lined up for both projects in the next 10 years, around \$11-12 billion is expected to come during the first phase. Around \$7 billion is meant for semiconductors and the remaining for the display unit. For display, companies such as LG, Toshiba and Lava International could be targeted, Hebbar said. Vedanta will also focus on LCD display during the first phase and will look at OLED during the second phase, he

Choose Protection Again with SPECIAL REVIVAL CAMPAIGN

An opportunity to revive your lapsed policy with concessional late fee.

Period- 07.02.2022 to 25.03.2022

Concession in late fee for eligible policies*

** T & C Apply

Total Receivable Premium	% Late Fee Concession	Maximum Concession Limit
Up to ₹1,00,000	20%	₹ 2000
From ₹1,00,001 to ₹3,00,000	25%	₹ 2500
From ₹3,00,001 and above	30%	₹ 3000

*Not applicable for high risk plans like Term Assurance, Multiple Risk Policies etc. **Policies can be revived within 5 years from the date of First Unpaid Premium.

For details, contact your Agent/Nearest LIC Branch or SMS YOUR CITY NAME to 56767474 Har Pal Aapke Saath Follow us : f D C India Forever IRDAI Regn No.: 512



AMBIT Finvest AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) (Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) Whereas the undersigned being the authorized officer of **Ambit Finvest Private Limited** Having its registered office at Ambit House, 449, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Corporate office at Kanakia Wall Street - 5th floor, A 506-510, Andheri-Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400093, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned hereunder calling upon the following borrowers to repay th amount mentioned in the notice being also metriond hereunder within within 60 days from the date of receipt of the said notice. The following borrowers having failed to repay the amount notice is hereby given to the following borrowers and the and the public ir general that undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under

Pragati ke partner Corporate Off: Kanakia Wall Street, 5th floor, A 506-510, Andheri-Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400093

sub section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Name of the Borrower/Co-Borrowers / Guarantors & Loan Account Number 1) KUMAR ENTERPRISES Demand Notice Date Description Of Immovable Property / Properties Mortgaged All that part and parcel of property consisting of No 16.11.2021 275 A Part of Khasra No 117/2 Village, Naharpur Rs. 1,09,89,781/ 2) MANOJ SHARMA Rohini NEW DELHI, - 110085. Boundaries : East : 3) SONAM SHARMA Rupees One Crore Nine Lakhs

Eighty Nine Thousand Seven Street West : Street South : Other Property North : Possession DEL000000018089 Hundred Eighty One Only) As on 11.11.2021 The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the Charge of Ambit Finvest Private Limited for an amount mentioned herein above and interest thereon. The borrower's

attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets Date: 19.02.2022. Place: New Delhi Sd/- Authorised Officer, Ambit Finvest Private Limited

Pine Labs raises \$150 mn from Alpha Wave Venture

SBI-backed firm has raised around \$870 mn in 7 months

DEEPSEKHAR CHOUDHURY Bengaluru, 18 February

Fintech firm Pine Labs said on Friday that it has raised \$150 million from Alpha Wave Venture, bringing its total funding in the last seven months to around \$870 mil-

The firm declined to reveal the valuation at which it raised money this round. However, an ET report said that the funding round was done at a valuation of over \$5 billion. The company had said earlier that it plans to go for an initial public offer (IPO) this year or early next year.

"Alpha Wave Venture has invested \$150 million in Pine Labs. We are happy to bring a marquee investor on board. Our omni-channel strategy is showing strong revenue growth. We are also seeing strong growth in international markets," said Pine Labs Chief Executive Officer Amrish Rau.



This round of funding comes a month after the company received \$20 million from State Bank of India. Pine Labs, which is backed by Sequoia Capital, Temasek Holdings, Actis, PayPal and Mastercard, among other leading global investors, competes with other fintech companies such as BharatPe, Mswipe, Paytm and Razorpay.

In July last year, Pine Labs had raised \$600 million from a marquee set of new investors at a \$3-billion valuation, and later followed it up with a \$100-million fundraise from US-based Invesco Developing Markets Fund. In addition to augmenting

its merchant commerce offerings at the offline point-ofsale. Pine Labs is now looking to scale up Plural, its newly launched brand of online payment products, and emerge as an omni-channel partner for merchants. It is also expanding its Buy Now Pay Later (BNPL) business across India and southeast Asia. It entered the consumer payments space after acquiring Fave, a southeast Asian consumer fintech platform, in April 2021. The fintech firm has a sizable presence in the gift, prepaid and stored value segment through its acquisition of Qwikcilver in 2019.

BPCLintalks to set up 2-wheeler EV charging systems

Chennai, 18 February

Bharat Petroleum Corporation (BPCL) is in talks with two original equipment manufacturers (OEMs) in the electric two-wheeler segment to allow them to set up charging stations at BPCL retail outlets.

The company also plans to add four-wheeler electric vehicle (EV) charging facilities at around 7,000 or 36 per cent of its retail outlets by 2024, a top company official told Business Standard. Thursday, the company launched India's first EV fastcharging corridor on Chennai - Trichy - Madurai highway, with the rollout of DC fast chargers at 10 outlets along the 900-km route.

"We are planning to add 1,000 more retail outlets with charging facilities for fourwheelers by the end of this year and increase it to 7,000 by 2024 with an investment of around ₹1,400 crore," said P S

Ravi, executive director incharge (Retail), BPCL. "In twowheelers, we are in talks with at least two OEMs to set up their charging centers at our company-owned-dealer-operated (Codo) outlets.'

The model will be such that the revenue generated by OEMs using the outlets will be shared between the company and the dealers.

"For four wheelers, you have a standardised charging protocol. For two-wheelers, each player will have a separate protocol. Hence, a tie up with us will be advantageous for them," he said. BPCL has set a target of becoming a netzero company by 2040. It has already set up battery swapping centers at Cochin and Hyderabad.

Indian Oil Corporation (IOC), Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) and BPCL already have plans to come up with at least 22,000 charging stations in the next few years.

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy

	(Previously Known as VAG BUILDTECH PRIVATE LIMITED)					
	Relevant Particulars					
1.	Name of the corporate debtor	VAG BUILDTECH LIMITED (Previously Known as SUNILHITECH INDIA INFRA PRIVATE LIMITED) (Previously Known as VAG BUILDTECH PRIVATE LIMITED)				
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	12-06-2012				
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies(ROC), Mumbai				
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U45400MH2012PLC232077				
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of the Corporate Debtor	Registered Office:- 3rd Floor, Flat No. 301, Saba Palace Khar West Mumbai Maharashtra:- 400054				
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	26-11-2021 (The order was intimated to the IRP on 01-12-2021)				
7.	Date of invitation of expression of interest	19-02-2022				
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Send an email at cirp.vagbl@gmail.com				
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Send an email at cirp.vagbl@gmail.com				
10.	Last date for receipt of expression of interest	07-03-2022				
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	17-03-2022				
12.	Last date for submission of objections to provisional list	22-03-2022				
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	01-04-2022				
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	22-03-2022				
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum("IM") and further information	By email to cirp.vagbl@gmail.com after signing the non-disclosure agreement				
16.	Last date for submission of resolution plans	21-04-2022				
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	By email to cirp.vagbl@gmail.com and hardcopy in a sealed envelope to the address of Resolution Professional as mentioned in point no. 21				
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	06-05-2022				
19.	Name and registration number of the resolution professional	Mr. Ashish Vyas IBBI/IPA-001/IP-P-01520/2018-2019/12267				
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Mr. Ashish Vyas, Resolution Professional, Address: B-1A Viceroy Court CHS, Thakur Village, Kandivali (East), Mumbai Suburban, Maharashtra- 400101 Email: ashishyas 2006@mmil.com				

cirp.vagbl@gmail.com 19-02-2022 3. Date of publication of Form G Ashish Vyas Resolution professional of Vag BuildTech Limited IBBI/IPA-001/IP-P-01520/2018-2019/12267 Date: 19-02-2022 402, Suashish IT Park Datta Pada Road Place: Mumbai Borivali Fast Mumbai :- 400066

400101. Email: ashishvyas2006@gmail.com 402, Suashish IT Park Datta Pada Roa

Borivali East Mumbai :- 400066







Dharamshila Cancer Foundation And Research Centre

in collaboration with

Center for Sustainable Development (CSD), FORE School of Management, New Delhi

is organizing

WEBINAR ON

Breast Cancer & Cervix Cancer



Prof. (Dr.) Ramesh Dawar Vice President, DCFRC



Dr. Pragya Singh



Dr. Jitendra Das

🛗 19 February 2022, Saturday | 🕙 10:00 AM Onwards

ZOOM WEBINAR ID: 871 3103 2019 **PASSWORD**: prevention

For More Details, Please Contact:

(Rs. in million, except per share data)

Prof. Shallini Taneja, Prof.-in-Charge, CSD, FORE School of Management, Email Id: csd@fsm.ac.in Mr. Vineet Pankaj, Dharamshila Narayana Superspeciality Hospital, Email Id: vineet.pankaj1@gmail.com

For organizing online webinar/talk/camp, contact Mr. Vineet 9999957572

9.70



Address and email to be used for

Further Details are available at or with

INTERNATIONAL

CIN: L74899DL1993PLC053579

Registered Office: GF-1-A. 6. Devika Tower, Nehru Place, New Delhi- 110019 Tel: +91 120 4303500; Fax: +91 120 4082699; Website: www.rsystems.com; Email: rsil@rsystems.com

Extract of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended December 31, 2021

Standalone Financial Results **Particulars** Consolidated Financial Results Three months ended Three months ended Year ended Year ended 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 (Refer Notes) (Audited) (Audited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 1,684.28 1,209.58 3,286.46 2,366.41 11,556.39 Revenue from operations 5,775.01 Profit before tax and exceptional items for the period* 391.72 293.81 1.358.93 408.24 350.38 1,700.72 Profit before tax after exceptional items for the period* 391.72 293.81 1.358.93 408.24 331.73 1.700.72 332.28 255.44 1.157.47 327.93 292.99 1.414.36 Net profit after tax and exceptional items for the period Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) 331.08 250.91 1.158.18 325 57 322.99 1,382.17 and other comprehensive income (after tax)] Paid - up equity share capital (Face value Re. 1/- each) 118.31 119.64 118.31 118.31 119.64 118.31 4,484.65 4,484.65 3,421.33 3,421.33 4.148.61 Reserves excluding Revaluation Reserve as at December 31, 2021 and 3.309.28 December 31, 2020 Earnings per share (Face value of Re. 1/- each) (not annualised)

The Company does not have any extraordinary item to report for the above periods.

Place: NOIDA

17.02.2022

Symbolic

The financial results for the quarter and year ended December 31, 2021 were reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their meetings

2.80

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website at www.rsystems.com.

> For and on behalf of the Board of Directors of R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

> > Lt. Gen. Baldev Singh (Retd.) President & Senior Executive Director

DIN: 00006966 Date: February 18, 2022